



## स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (AIM) का उद्घोष

गांधी ने किया, मंडेला ने किया और हम भी कर रहे हैं ! आपँ, शांतिपूर्ण मार्ग द्वारा मधेश को स्वतंत्र करें,  
नेपाली उपनिवेश का अन्त करें !!

### हमारी माँगें

1. मधेश को सार्वभौम-सम्पन्न स्वतन्त्र देश घोषणा की जाए। नेपाली उपनिवेश का अन्त हो।
2. मधेशी राजनैतिक पार्टियाँ और नागरिक समाज को मिलाकर अविलम्ब अन्तरिम मधेश संसद और मधेश सरकार का गठन किया जाए, जो मधेश में आगामी निर्वाचन कराने और संविधान बनाने का काम करेगी।
3. मधेश से नेपाली राज के शासन-संयन्त्र और प्रशासक को वापस लिया जाए। उस जगह पर मधेश सरकार अपना शासन संयन्त्र और प्रशासक रखेगी।
4. मधेश से नेपाल सरकार सम्पूर्ण कर और राजस्व वसूली अविलम्ब बन्द करे। वह काम मधेश सरकार करेगी।
5. मधेश के साधन-स्रोत, जल, जमीन और जंगल पर से नेपाल सरकार का अधिपत्य हटाया जाए।
6. मधेश से नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल हटाकर उनमें से मधेशियों को चुनकर मधेश प्रहरी का अविलम्ब गठन किया जाए।
7. मधेश से सम्पूर्ण नेपाली सेना हटाकर मधेशी सेना का अविलम्ब गठन किया जाए।
8. मधेशियों से हरण की गई जमीन को वापस किया जाए, और उसे मधेश सरकार के मातहत में रखा जाए।
9. मधेश में संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्व के राष्ट्रों के प्रतिनिधि रखने लिए आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

**अपना मधेश — आजाद देश !!**

**नेपाली उपनिवेश, अन्त हो !! मधेश देश, स्वतंत्र हो !!**

**नहीं चलेगा नेपाली राज, मधेश में होगा पूर्ण-स्वराज !!**

**बड़े बड़े शब्द देखे, बड़े बड़े संसद**

**बड़े बड़े समझौते किए, पर ठगे गए अब तक**

**अधिकार नहीं, उल्टा गुलामी मिली**

**इसलिए रूकना नहीं अब, आजाद न होने तक !**

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन मधेश की आजादी चाहने वाले व्यक्ति, संघ-संगठन और पार्टियों का साझा मंच है। यह कोई पार्टी नहीं, बल्कि संरचना है। इसका लक्ष्य बुद्ध, गांधी और मंडेला के अहिंसावादी सिद्धान्तों पर चलते हुए शान्तिपूर्ण मार्ग द्वारा मधेश में नेपाली उपनिवेश, रंगभेद और गुलामी का अन्त करके मधेश को आजाद करना है। मधेश में जन्मे, पले-बड़े और विलायत के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएच. डी. करके अमेरिका में वैज्ञानिक रह चुके डा. सी. के. राउत इसका नेतृत्व करते हैं। उन्होंने 'मधेश का इतिहास', 'वीर मधेशी', 'मधेश स्वराज' और 'वैराग से बचाव तक' (डिनायल टू डिफेन्स) किताबें भी लिखी हैं और वे युवा इन्जिनियर पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषण, कुलरत्न गोल्डमेडल और ट्रूफिमेन्करफ एकाडेमिक एचिभमेन्ट अवार्ड जैसे सम्मानों से विभूषित हैं।